

श्री देव-शास्त्र-गुरु पूजा Śrī dēv-śāstra-guru poojā

(कवि श्री रवीन्द्रजी)
(Kaviśrī Ravīndrajī)

देव-शास्त्र-गुरुवर अहो! मम स्वरूप दर्शाय |
किया परम उपकार में, नमन करूँ हर्षाय ||
जब मैं आता आप ढिंंग, निज स्मरण सु आय |
निज प्रभुता मुझमें प्रभो! प्रत्यक्ष देय दिखाय ||

ॐ ह्रीं श्री देवशास्त्रगुरु समूह! अत्र अवतर! अवतर! संवौषट् (आह्वाननम्)।
ॐ ह्रीं श्री देवशास्त्रगुरु समूह! अत्र तिष्ठ! तिष्ठ! ठः! ठः! (स्थापनम्)।
ॐ ह्रीं श्री देवशास्त्रगुरु समूह! अत्र मम सन्निहितो भव! भव! वषट् (सन्निधिकरणम्)।

Dēv-śāstra-guruvara ahō! mam svarūp darśāya |
Kiyā param upakār mair̄ṁ, naman karūṁ harṣāya ||
Jab mair̄ṁ ātā āp ḍhiṅg, nij smaraṇ su āya |

Nij prabhutā mujh mēm prabhō! pratyakṣa dēy dikhāya ||

Om hrīm śrī dēv-śāstra-guru samūh! atra avatara! Avatara! samvouṣaṭ! (āhvānanam)
Om hrīm śrī dēv-śāstra-guru samūh! atra tiṣṭha! tiṣṭha! ṭha! ṭha! (sthāpanam)
Om hrīm śrīdēv-śāstra-guru samūh! atra mam sannihitō bhava bhava vaṣaṭ!(sannidhikaraṇam)

(शंभु छन्द)

जब से स्व-सन्मुख दृष्टि हुई, अविनाशी ज्ञायक रूप लखा |
शाश्वत अस्तित्व स्वयं का लखकर, जन्म-मरणभय दूर हुआ ||
श्री देव-शास्त्र-गुरुवर सदैव, मम परिणति में आदर्श रहो |
ज्ञायक में ही स्थिरता हो, निज भाव सदा मंगलमय हो ||

ॐ ह्रीं श्री देवशास्त्रगुरुभ्यः जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलं निर्वपामीति स्वाहा।

Śhambhu chhanda)

Jab sē sva-sanmukh dṛishti hui, avināśī jñāyak rūp lakhā |
Śāśvat astitva svayaṁ kā lakh kar, janm-maraṇ bhaya dūra huā |
Śrī dēv-śāstra-guruvar sadaiv, mam pariṇati mēm ādarś rahō |
Jñāyak mēm hī sthiratā hō, nij bhāv sadā maṅgalamaya hō ||

Om hrīm śrī dēv-śāstra-gurubhyah Janm-jarā-mṛatyu vināśanāya jalam nirvapāmīti svāhā |

निज परमतत्त्व जब से देखा, अद्भुत शीतलता पाई है |
आकुलतामय संतप्त परिणति, सहज नहीं उपजाई है ||
श्री देव-शास्त्र-गुरुवर सदैव, मम परिणति में आदर्श रहो |
ज्ञायक में ही स्थिरता हो, निज भाव सदा मंगलमय हो ||

ॐ ह्रीं श्री देवशास्त्रगुरुभ्यः संसारतापविनाशनाय चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा।

Nij param-tattva jab sē dēkhā, adbhut śītalatā pāi hai |
Ākulatāmaya santapt pariṇati, sahaj nahīn upjaai hai ||
Śrī dēv-śāstra-guruvara sadaiv, mam pariṇati mēm ādarś rahō |
Jñāyak mēm hī sthiratā hō, nij bhāv sadā maṅgalamaya hō ||

Om hrīm śrī dēv-śāstra-gurubhyah samsāratāp vināśanāya candanam nirvapāmīti svāhā |

निज अक्षयप्रभु के दर्शन से ही, अक्षयसुख विकसाया है |
 क्षत् भावों में एकत्वपने का, सर्व विमोह पलाया है ||
 श्री देव-शास्त्र-गुरुवर सदैव, मम परिणति में आदर्श रहो |
 ज्ञायक में ही स्थिरता हो, निज भाव सदा मंगलमय हो ||

ॐ ह्रीं श्री देवशास्त्रगुरुभ्यः अक्षयपदप्राप्तये अक्षतान् निर्वपामीति स्वाहा।

Nij akṣaya-prabhu kē darśan sē hī, akṣay-sukh vikaśāyā hai |
Kṣat bhāvōm mēm ēkatvapanē kā, sarva vimōh palāyā hai ||
Śrī dēva-śāstra-guruvara sadaiv, mam pariṇati mēm ādarś rahō |
Jñāyak mēm hī sthiraṭā hō, nij bhāv sadā maṅgalamaya hō ||
Om hrīm śrī dēv-śāstra-gurubhyah akṣayapad-prāptayē akṣataan nirvapāmīti svāhā |

निष्काम परम ज्ञायक प्रभुवर, जब से दृष्टि में आया है |
 विभु ब्रह्मचर्य रस प्रकट हुआ, दुर्दान्त काम विनशाया है ||
 श्री देव-शास्त्र-गुरुवर सदैव, मम परिणति में आदर्श रहो |
 ज्ञायक में ही स्थिरता हो, निज भाव सदा मंगलमय हो ||

ॐ ह्रीं श्री देवशास्त्रगुरुभ्यः कामबाणविध्वंसनाय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा।

Niṣkāma param jñāyak prabhuvar, jab sē dṛṣṭi mēm āyā hai |
Vibhu brahmacarya ras prakat huā, durdānt kām vinaśāyā hai ||
Śrī dēv-śāstra-guruvara sadaiv, mam pariṇati mēm ādarś rahō |
Jñāyak mēm hī sthiraṭā hō, nij bhāv sadā maṅgalamaya hō ||
Om hrīm śrī dēv-śāstra-gurubhyah Kām-bāṇ vidhvansanāya puṣpaṁ nirvapāmīti svāhā |

में हुआ निमग्न तृप्ति सागर में, तृष्णा ज्वाल बुझाई है |
 क्षुधा आदि सब दोष नशं, वह सहज तृप्ति उपजाई है ||
 श्री देव-शास्त्र-गुरुवर सदैव, मम परिणति में आदर्श रहो |
 ज्ञायक में ही स्थिरता हो, निज भाव सदा मंगलमय हो ||

ॐ ह्रीं श्री देवशास्त्रगुरुभ्यः क्षुधारोगविनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा।

Maim huā nimagna tṛpti sāgar mēm, tṛṣṇā jvāal bujhāi hai |
Kṣudhā ādi sab dōṣh naśēm, vah sahaj tṛpti upajāi hai ||
Śrī dēv-śāstra-guruvara sadaiv, mam pariṇati mēm ādarś rahō |
Jñāyak mēm hī sthiraṭā hō, nij bhāv sadā maṅgalamaya hō ||
Om hrīm śrī dēv-śāstra-gurubhyah Kṣudhārōg-vinaśanāya naivedyaṁ nirvapāmīti svāhā |

ज्ञान-भानु का उदय हुआ, आलोक सहज ही छाया है |
 चिरमोह महातम हे स्वामी, इस क्षण ही सहज विलाया है ||
 श्री देव-शास्त्र-गुरुवर सदैव, मम परिणति में आदर्श रहो |
 ज्ञायक में ही स्थिरता हो, निज भाव सदा मंगलमय हो ||

ॐ ह्रीं श्री देवशास्त्रगुरुभ्यः मोहांधकारविनाशनाय दीपं निर्वपामीति स्वाहा।

Jñān-bhānu kā uday huā, ālōk sahaj hī chāyā hai |
Chir-mōh mahātam hē svāmī, is kṣhaṇ hī sahaj vilāyā hai ||
Śrī dēv-śāstra-guruvara sadaiva, mam pariṇati mēm ādarś rahō |
Jñāyak mēm hī sthiraṭā hō, nij bhāv sadā maṅgalamaya hō ||
Om hrīm śrī dēv-śāstra-gurubhyah Mōhāndhakāravinaśanāy dīpaṁ nirvapāmīti svāhā |

द्रव्य-भाव-नोकर्म शून्य, चैतन्य प्रभु जब से देखा |
 शद्ध परिणति प्रकट हुई, मिटती परभावों की रेखा ||
 श्री देव-शास्त्र-गुरुवर सदैव, मम परिणति में आदर्श रहो |
 ज्ञायक में ही स्थिरता हो, निज भाव सदा मंगलमय हो ||
 ॐ ह्रीं श्री देवशास्त्रगुरुभ्यः अष्टकर्मदहनाय धूपं निर्वपामीति स्वाहा।

Dravya-bhāv-nōkarm śūn'ya, caitanya prabhu jab sē dēkhā |
Śuddha pariṇati prakṛṭ hui, miṭatī par-bhāvōm kī rēkhā ||
Śrī dēv-śāstra-guruvara sadaiv, mam pariṇati mēm ādarśa rahō |
Jñāyaka mēm hī sthiratā hō, nij bhāv sadā maṅgalamaya hō ||
Om hrīm śrī dēv-śāstra-gurubhya aṣṭakarmadahanāya dhūpam nirvapāmīti svāhā |

अहो पूर्ण निज वैभव लख, नहीं कामना शेष रही |
 हो गया सहज में निर्वाहक, निज में ही अब मुक्ति दिखी ||
 श्री देव-शास्त्र-गुरुवर सदैव, मम परिणति में आदर्श रहो |
 ज्ञायक में ही स्थिरता हो, निज भाव सदा मंगलमय हो ||
 ॐ ह्रीं श्री देवशास्त्रगुरुभ्यः मोक्षफलप्राप्तये फलं निर्वपामीति स्वाहा।

Ahō pūrṇa nija vaibhava lakha, nahīm kāmanā śēṣa rahī |
Hō gayā sahaja mairṇ nivārchaka, nija mēm hī aba mukti dikhī ||
Śrī dēva-śāstra-guruvara sadaiva, mama pariṇati mēm ādarśa rahō |
Jñāyaka mēm hī sthiratā hō, nija bhāva sadā maṅgalamaya hō ||
'Om hrīm śrī dēvaśāstragurubhya: Mōkṣaphala prāptayē phalaṁ nirvapāmīti svāhā |

निज से उत्तम दिखे न कुछ भी, पाई निज अनर्घ्य माया |
 निज में ही अब हुआ समर्पण, ज्ञानानन्द प्रकट पाया ||
 श्री देव-शास्त्र-गुरुवर सदैव, मम परिणति में आदर्श रहो |
 ज्ञायक में ही स्थिरता हो, निज भाव सदा मंगलमय हो ||
 ॐ ह्रीं श्री देवशास्त्रगुरुभ्यः अनर्घ्यपदप्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।

Nija sē uttama dikhē na kucha bhī, pāi nija anarghya māyā |
Nija mēm hī aba hu'a samarpaṇa, jñānānanda prakṛṭa pāyā ||
Śrī dēva-śāstra-guruvara sadaiva, mama pariṇati mēm ādarśa rahō |
Jñāyaka mēm hī sthiratā hō, nija bhāva sadā maṅgalamaya hō ||
Om hrīm śrī dēvaśāstragurubhyōnarghyapadaprapṭayē arghyaṁ nirvapāmīti svāhā |

जयमाला Jayamālā

(दोहा)

ज्ञान मात्र परमात्मा, परम प्रसिद्ध कराय ।
धन्य आज मैं हो गया, निज स्वरूप को पाय ॥

(Dōhā)

Jñāna mātṛā paramātmā, parama prasid'dha karāya ।
Dhan'ya āja maim hō gayā, nija svarūpa kō pāya ॥

(हरिगीता छन्द)

चैतन्य में ही मग्न हो, चैतन्य दरशाते अहो ।
निर्दोष श्री सर्वज्ञ प्रभुवर, जगत्साक्षी हो विभो ॥

सच्चे प्रणेता धर्म के, शिवमार्ग प्रकटाया प्रभो ।
कल्याण वाँछक भविजनो, के आप ही आदर्श हो ॥

शिवमार्ग पाया आप से, भवि पा रहे अरु पायेंगे ।
स्वाराधना से आप सम ही, हुए, हो रहे, होयेंगे ॥

तव दिव्यध्वनि में दिव्य-आत्मिक, भाव उदघोषित हुए ।
गणधर गुरु आमनाय में, शुभ शास्त्र तब निर्मित हुए ॥

निर्गुण गुरु के ग्रन्थ ये, नित प्रेरणाएं दे रहे ।
निजभाव अरु परभाव का, शुभ भेदज्ञान जगा रहे ॥

इस दुषम भीषण काल में, जिनदेव का जब हो विरह ।
तब मात सम उपकार करते, शास्त्र ही आधार हैं ॥

जग से रहें उदास, स्वयं में वास जो नित ही करें ।
स्वानुभव मय सहज, जीवन मूल गुण परिपूर्ण हैं ॥

नाम लेते ही जिन्हों का, हर्ष मय रोमाँच हो ।
संसार-भोगों की व्यथा, मिटती परम आनन्द हो ॥

परभाव सब निस्सार दिखते, मात्र दर्शन ही किए ।
निजभाव की महिमा जगे, जिनके सहज उपदेश से ॥

उन देव-शास्त्र-गुरु प्रति, आता सहज बहुमान है ।
आराध्य यद्यपि एक, ज्ञायकभाव निश्चय ज्ञान है ॥

अर्चना के काल में भी, भावना ये ही रहे ।
धन्य होगी वह घड़ी, जब परिणति निज में रहे ॥

ॐ ह्रीं श्री देवशास्त्रगुरुभ्यः अनर्घ्यपदप्राप्तये जयमाला अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

(Harigīta-chanda)

Caitan'ya mēm hī magna hō, caitan'ya daraśātē ahō ।
Nirdōṣa śrī sarvajña prabhuvara, jagatsākṣī hō vibhō ॥

Saccē praṇētā dharma kē, śivamārga prakāṭyā prabhō ।
Kalyāṇa-vāṁchaka bhavijanōm, kē āpa hī ādarśa hō ॥

Śivamārga pāyā āpa sē, bhavi pā rahē aru pāyēṅgē |
Svārāadhanā sē āpa sama hī, hu'ē hō rahē hōyēṅgē ||

Tava divyadhvani mēm divya-ātmika, bhāva udaghōṣita hu'ē |
Gaṇadhra guru āmnāya mēm, śubha śāstra taba nirmita hu'ē ||

Nirgrantha guru kē grantha yē, nita prēraṇāyēm dē rahē |
Nijabhāva aru parabhāva kā, śubha bhēdajñāna jagā rahē ||

Isa duṣama bhīṣaṇa kāla mēm, jinadēva kā jaba hō viraha |
Taba māta sama upakāra karatē, śāstra hī ādhara haiṁ ||

Jaga sē udāsa rahēm svayaṁ mēm, vāsa jō nita hī karēm |
Svānubhava-maya sahaja jīvana, mūla guṇa paripūrṇa haiṁ ||

Nāma lētē hī jinhōm kā, harṣa-maya rōmāṁca hō |
Sansāra-bhōgōm kī vyathā, miṭatī parama ānanda hō ||

Parabhāva saba nis'sāra dikhatē, mātrā darśana hī ki'ē |
Nijabhāva kī mahimā jagē, jinavēpha sahaja upadēsa sē ||

Una dēva-śāstra-guru prati, ātā sahaja bahumāna hai |
Ārādhya yadyapi ēka, jñāyakabhāva niścaya jñāna hai ||

Arcanā kē kāla mēm bhī, bhāvanā yē hī rahē |
Dhan'ya hōgī vaha gharī, jaba pariṇati nija mēm rahē ||

'Om hrīm śrī dēvaśāstrāgurubhyōharghyapadaprāptayē Jayamālā-arghyaṁ nirvapāmiti svāhā |

(दोहा)

अहो कहाँ तक मैं कहूँ, महिमा अपरम्पार |
निज महिमा में मगन हो, पाऊँ पद अविकार ||

(Dōhā)

Ahō kahāṁ taka maiṁ kahūṁ, mahimā apampāra.
Nija mahimā mēm magana hō, pā'ūrṁ pada avikāra.

॥ पुष्पाजलिं क्षिपामि ॥

॥ Puṣpājaliṁ kṣipāmi. ॥
